



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 600 राँची, शुक्रवार,

26 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुचार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2019

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5579-- श्री सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- देवघर) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह की विभागीय अधिसूचना सं०- 4951 दिनांक 24.06.2019 द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2019 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-रामगढ़) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह को दिनांक 15.07.2019 से श्रावणी मेला बासुकीनाथ, 2019 की समाप्ति तक के लिए दुमका जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5580-- श्री मोहन लाल मराण्डी, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार की विभागीय अधिसूचना सं०- 4951 दिनांक 24.06.2019 द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2019 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार को दिनांक 15.07.2019 से श्रावणी मेला बासुकीनाथ, 2019 की समाप्ति तक के लिए दुमका जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु अविलम्ब विरमित करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में अविलम्ब योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला बासुकीनाथ की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।
